



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 कार्तिक 1945 (श10)

(सं0 पटना 948) पटना, बृहस्पतिवार, 9 नवम्बर 2023

सं0सं0-04तक0/बिहार लघु उद्यमी योजना/67/2023/3352
उद्योग विभाग

संकल्प

8 नवम्बर 2023

विषय:— राज्य अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में जाति आधारित गणना वर्ष 2022-23 में परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या का आंकड़ा स्पष्ट हुआ है। कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 2 करोड़ 76 लाख में से 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाये गये हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

कोटि	कुल परिवारों की संख्या	गरीब परिवारों की संख्या	प्रतिशत
सामान्य वर्ग	4328282	1085913	25.09%
पिछड़ा वर्ग	7473529	2477970	33.16%
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	9884904	3319509	33.58%
अनुसूचित जाति	5472024	2349111	42.93%
अनुसूचित जनजाति	470256	200809	42.70%
कुल	27628995	9433312	34.14%

2. राज्य के सभी वर्गों में आर्थिक रूप से गरीब परिवार के आर्थिक उत्थान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जायेगा, ताकि इन गरीब परिवारों के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार से जोड़ने हेतु अधिकतम 2 लाख

रूपये के अनुदान की राशि किशतों में भुगतान की जाएगी। लाभान्वित व्यक्ति इस राशि से उद्यम स्थापित कर के रोजगार प्राप्त करते हुए अपने परिवार के आर्थिक स्थित में सुधार ला सकेंगे।

3. उद्योग विभाग, बजट एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा चलाई जा रही स्वरोजगार एवं विकास योजनाओं के ध्यान में रखते हुए "बिहार लघु उद्यमी योजना" हेतु विस्तृत मार्ग निर्देशिका निर्गत करेगा।

4. यह योजना संकल्प निर्गत तिथि से पाँच वर्षों तक के लिए प्रभावी रहेगी।

5. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-07.11.2023 की बैठक में मद सं0-05 की रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संदीप पौण्डरीक,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 948-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>